

### B.A.G. Films and Media Limited

"CIN: L74899DL1993PLC051841" FC-23, Sector 16A, Film City, Noida 201 301

Tel.: 0120 4602424 | Fax : 0120 3911401

Mail: info@bagnetwork.in www.bagnetwork24.in

BAG/STX/letters/2025-26/AM/61 November 14, 2025

То,	То,
Corporate Relationship Department	Listing Compliance Department
BSE Limited,	National Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra
Dalal Street, Mumbai-400 001	(E), Mumbai-400 051
Scrip Code: 532507	SYMBOL: BAGFILMS

Sub: - Submission of Newspaper Publications of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Six Months Ended September 30, 2025

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of newspapers advertisement published in the Business Standard-English and Business Standard-Hindi editions dated November 14, 2025 regarding publication of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Six Months ended September 30, 2025.

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours sincerely

For **B.A.G. Films and Media Limited** 

(Ajay Mishra) Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a















## Mondelez India brings Biscoff to India, rolls out ₹10 pack

SHARLEEN D'SOUZA

Mondelez India has expanded its premium cookie portfolio by bringing Lotus Biscoff cookies into the country and aims for India to be among the top 3 countries for the biscuit.

The maker of Dairy Milk chocolates will also manufacture the cookie in India, originally made in Belgium. Mondelez India will also lead the brand's marketing and distribution. It will be available across traditional trade (mom-

(supermarkets and hypermarkets), ecommerce and quick commerce. Biscoff will start at a price point of ₹10 and will be should be a part of it. "We really available across

five pack sizes. cookie is AVAILABLE ACROSS The being manufac- FIVE PACK SIZES, a BISCOFF WILL BE tured at facility in Alwar, MANUFACTURED AT Rajasthan. Jan Boone, RAJASTHAN

Belgium-based Lotus Bakeries cookie around the world, and

become number three." He added that if a brand wants to go global, then India

> wanted become a branding India, we now have the best to conquer India. that partner is Mondelez,"

India in June 2024. Dirk Van De Put, chairman

and CEO. Mondelez Interna-"When we tional said, announced our partnership with Lotus Bakeries last year, our vision was clear—to bring together two iconic snacking brands and create something truly special for Indian consumers. This collaboration marks an exciting step in reflects our commitment to introduce millions of Indians to the Biscoff experience one that is as unique as it

Both firms have also teamed up for ice creams and they have already started to retail Biscoff ice-cream in Europe.

Sameer Jain, President-India, Mondelez International, also said at the roundtable, "The pricing overall will be an index of about 2.3 to 2.4 times of the market average, and is in the region of about ₹400 to ₹450 a kilogram." He added, "The accessibility is across price points for different kinds of consumers, allowing us to tap into a very wide range of consumers, both in their entry and in the large packs.

# DHL group to invest €1 bn across India units over five years

The investments will be made between 2026 and 2030

**PRACHI PISAL** Mumbai, 13 Novembe

Global logistics giant DHL group will invest 1 billion euros across its business units in India between 2026 and 2030, citing the country's favourable policies, rapid economic growth, and rising competitiveness.

Tobias Meyer, chief executive officer of DHL group, said a sizeable portion of the investment will go towards expanding the group's warehousing footprint in India. "This is all part of our global strategy. We have refined this strategy over many years. We have four 'bottom lines', as we call them: we aim to be the employer of choice, the provider of choice, the investment of choice, and the green logistics provider of choice," he said.

DHL currently operates about 22.7 million square feet (msf) of facilities across India through DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, and Blue Dart, adding 2 msf of warehousing space annually. The multi-year investment programme will focus on key sectors, including life sciences and healthcare, new energy, e-commerce, and digitalisation.

As part of this plan, DHL will develop a DHL Health Logistics hub for DHL Supply Chain in Bhiwandi, India's largest low-emission integrated operating facility for Blue Dart in Bijwasan, an automatic sorting centre for DHL Express in Delhi, a DHL IT Services Centre in Indore, electric vehicle and battery logistics centres of excellence in Chennai and Mumbai, and a low-emission integrated ground hub for Blue Dart in Harvana.

"Global trade is facing headwinds, but we remain confident in India's dynamic market. The country's diversification strategy and business-friendly policies provide a solid foundation for long-term investments. With our investment programme of around 1 billion euros, we are expanding reliable and more sustainable logistics solutions for our customers in India," Meyer said.

Under its 'Strategy 2030', DHL aims to scale up its India operations with a focus on the five key sectors, where early results are already showing. "India's trade diversification strategy is beginning to pay off, as we see increased trade with a wider range of markets. With our presence in 220 countries and territories, DHL Group is well-positioned to support this momentum," said R S Subramanian, senior vice-president —

BOTTOM LINES: WE AIM TO BE THE EMPLOYER OF CHOICE, THE PROVIDER OF CHOICE, THE INVESTMENT OF CHOICE, AND THE GREEN LOGISTICS PROVIDER OF CHOICE

**WE HAVE FOUR** 

Tobias Meyer Chief executive officer: DHL group

### 'Freight rates to stabilise next year at higher levels'

Edwin Pinto, managing director, DHL Global Forwarding (India), expects freight rates to stabilise next year at slightly higher levels. "At the moment, the rates are stable at a lower level, which is healthy for the industry as well. We don't expect a massive upswing in rates in the next couple of quarters. Next year, we will see stability in freight rates, albeit at a slightly higher level than where we

are right now," he said. Pinto added that amid tariff-related uncertainties, India has an opportunity to diversify its trade. "We are seeing a downturn in certain sectors in the volumes towards North America at the moment. We are seeing a shift in volumes towards Europe, which is a good thing. Our exporters are finding new markets," he added.

DHL Express.

DHL Group reported 84.2 billion euros in revenue in 2024, a third of which came from e-commerce. The group plans to invest in upgrading its infrastructure, expanding last-mile delivery, and enhancing capacity nationwide.

"A key focus will be on automation and advanced technologies that improve operational efficiency and support rapidly growing e-commerce volumes," said Balfour Manuel MD of Blue Dart.

Having operated in India for over 43 years, Meyer said DHL is committed to a long-term

## South Asia and managing director (MD), India, presence in the country. ReNew bets another ₹60K cr in

Andhra green energy projects **SHINE IACOB** 

Visakhapatnam, 13 November

ReNew Energy Global Plc (ReNew) said on Thursday it will invest ₹60.000 crore (\$6.7 projects in Andhra Pradesh, (\$9.3 billion).

The decarbonisation solutions company had in May said it will invest ₹22,000 crore (\$2.5 billion) in Andhra Pradesh to

set up one of India's largest hybrid renewable energy projects. According to four

separate memoranda of understanding (MoUs) signed on Thursday, the company will set up a 6-gigawatt green ammonia facility, and 5 officer, ReNew. Gw of hybrid projects. The MoUs were signed with the

resources development "Andhra Pradesh is committed to emerging as a (Mw) of operational wind national leader in renewable capacity and 60 Mw of solar ing, and is expanding solar cell

ReNew play a crucial role in Andhra Pradesh. The comadvancing this vision, said Naidu.

continued "ReNew's the state to ₹82,000 crore accelerate clean energy deployment, attract highquality jobs, and contribute meaningfully to sustainable

the people of the state," he said.

"ReNew has a long-standing presence in Andhra Pradesh and with this expansion we are bringing a fully integrated clean

energy value chain to Andhra Pradesh, from wafer to largescale renewable projects and (Gw) PV ingot-wafer plant, a 2 storage deployment," said Gw pumped hydro project, a Sumant Sinha, founder, chair-300 kilotonne per annum man, and chief executive

ReNew's hybrid renewable Andhra Pradesh Economic district will have a generation Development Board in the capacity of around 2.8 Gw, presence of Chief Minister N including 1.8 Gw solar and 1 Gw Chandrababu Naidu and Nara wind, and a battery energy Lokesh, minister for informa- storage system of 2 Gigawatttion technology, electronics hours (Gwh), It will be one of and communications, real the largest renewable energy time governance and human projects at one place in India.

ReNew has an operating portfolio of 717 megawatts energy, and partners like capacity spread over 10 sites in capacity by 4 Gw.

pany said that with the latest announcement, it will generate more than 10,000 direct investments reinforce the con- and indirect jobs. It will work fidence that global industry with the Andhra government billion) to set up green energy leaders have in the state's poltowards the state's target of icies, infrastructure, and generating 78.5 Gw of solar, 35 raising its total commitment in talent. This collaboration will Gw of wind power capacity, and 25 Gwh of battery energy storage.

Driven by the Integrated Clean Energy Policy launched and inclusive growth for in October 2024, the state grabbed a considerable share of the country's renewable energy investments last year. In renewables, major committed investments other than Brookfield include Tata Power (₹6,000 crore), NTPC Green (₹2.08 trillion), Vedanta's Serentica (₹50.000 crore), and SAEL Industries (₹6.000

crore), among others. ReNew has a clean energy portfolio of 18.5 Gw on a gross basis as of November 10, 2025, making it one of the largest globally. In addition to being a energy project in Anantapur major independent power producer in India, the company provides end-to-end solutions in a just and inclusive manner in the areas of clean energy, valueadded energy offerings through digitalisation, storage, and carbon markets that are integral

> In addition, ReNew has 6.4 GW of solar module capacity, 2.5 Gw of solar cell manufactur-

to addressing climate change.

## Jio urges Trai to have flexible 5G stance

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 13 November

Contending that net neutrality globally is evolving alongside market and tech advancements, Reliance Jio has urged traffic management and technology-centric innovations that are now possible with net-

work slicing in 5G. Jio has told the telecom regulator that it is receiving

products based on network slicing technology under 5G Standalone.

5G SA services across country, we are receiving proposals to the UK. Telecom Regulatory Authority launch tariff products based ible approach" to recognise under 5G SA. The sample proposals are for products for a low latency gaming slice etc," Jio told Trai, on the issue of Net Neutrality (that is the principle that all internet traffic should it said.

proposals to launch tariff be treated equally).

Globally, Net Neutrality is evolving with market and technology scenarios, Jio said "With the stabilising of our citing stance of regulators in markets such as the US and

"...Ofcom (UK regulator) of India (Trai) to have a "flex- on network slicing technology has concluded that new dimensions to net neutrality can be added in the form of defined upload speed slice and permitting premium quality retail offers, new 'specialised services', traffic management, most zero-rating offers,

Mumbai, 13 November

chief executive officer (CEO) at and-pop stores), modern trade

possible partner with Biscoff, and Boone said.

Mondelez International

is unforgettable.

said at a media roundtable, and Lotus Bakeries had "We are the fastest growing announced a strategic partnerwe have set our ambition to Lotus Biscoff cookie brand in

ship to expand and grow the

strengthening our play in the premium cookie segment and

BAG

(for continuing and discont

Date: November 12, 2025

Diluted

## **B.A.G. Films and Media Limited**

Regd Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Kondli, New Delhi-110096 Corp Office: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP)-201301 Website: www.bagnetwork24.in, e-mail: info@bagnetwork.ir

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2025 Six Months Ended Year Ended **Quarter Ended** Year Ended Six Months Ended Quarter Ended **Particulars** 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2024 30.09.2025 30.09.2024 31.03.2025 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.09.2024 31.03.2025 (Audited) (Unaudited) (Unaudited) Total Income from operation (net) 1,757.48 3,814.28 6,294.89 13,595.87 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax 1,224.26 92.1 26.6 156.10 81.04 154.18 279.10 244.87 Exceptional and/or Extraordinary items) 244.87 1.224.26 Net Profit/(Loss) for the period before tax 63.99 92.11 26.61 156.10 81.04 154.18 45.59 279.10 56.04 324.69 (after Exceptional and/or Extraordinary item Net Profit/(Loss) for the period after tax 55.67 78.99 18.16 134.66 58.54 108.95 33.75 224.62 57.79 258.37 216.03 999.03 (after Exceptional and/or Extraordinary item 55.67 78.99 18.16 134.66 58.54 130.06 33.75 224.62 57.79 258.37 216.03 981.84 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Incomprehensive Incomprehe (after tax)] **Equity Share Capital** 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 3,956.66 Earnings Per Share (of ₹2/- each)

1) The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and six months ended September 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on November 12, 2025.

0.07

2) These unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (India Accounting Standards) Rules 2015 and in terms of SEBI Regulations as amended, and other recognised accounting practices and policies, to the extent applicable.

3) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of th The above is an extract of the detailed format of binducined standardne and Consolidated Financial Results for the Quarter and six months ended september 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under regulation SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standardne and Consolidated Financial Results for the Quarter and six months ended September 30, 2025 are a investors on the Stock Exchange websites <a href="www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and <a href="www.nseindia.com

0.03





0.07

0.02

0.11

0.03

For B.A.G. Films and Media Limited Sd/-**Anuradha Prasad Shukla** Chairperson and Managing Director

(₹ in Lakhs

DIN: 00010716

0.11

0.50

## Emami REALTY LIMITED

CIN: L45400WB2008PLC121426

Regd Office: Acropolis, 13th Floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, Kolkata – 700107

Extract of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter & Half Year Ended 30th September, 2025

		Standalone						Consolidated					
Particulars	For the Quarter Ended		For the Half Year Ended		For the Year Ended	For the Quarter Ended			For the Half Year Ended		For the Year Ended		
	30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025		31-03-2025	30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025		31-03-2025	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	916.94	584.85	505.98	1,501.79	951.00	7,670.31	916.94	600.66	600.04	1,517.60	1,143.10	8,230.84	
Net Profit/(Loss) before taxes	(4,121.38)	(5,603.50)	(1,741.73)	(9,724.88)	(3,615.04)	(14,592.37)	(4,122.14)	(5,605.33)	(1,750.58)	(9,727.47)	(3,599.99)	(14,699.84)	
Net Profit/(Loss) after taxes	(3,558.05)	(5,078.65)	(1,320.51)	(8,636.70)	(2,721.14)	(12,516.03)	(3,554.07)	(5,080.48)	(1,326.58)	(8,634.55)	(2,708.85)	(12,623.76)	
Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss)													
after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(3,558.05)	(5,078.65)	(1,320.51)	(8,636.70)	(2,721.14)	(12,495.36)	(3,554.07)	(5,080.48)	(1,326.58)	(8,634.55)	(2,708.85)	(12,603.09)	
Equity Share Capital	876.68	876.68	756.88	876.68	756.88	756.88	876.68	876.68	756.88	876.68	756.88	756.88	
Reserves excluding Revaluation Reserves	-	-		(16,424.69)	(8,226.35)	(17,999.59)		-	-	(15,350.71)	(7,033.53)	(16,927.76)	
Earnings per share (of ₹2/- each) (Not annualised):													
(a) Basic (₹)	(8.12)	(11.85)	(3.49)	(19.93)	(7.19)	(33.07)	(8.11)	(11.86)	(3.51)	(19.92)	(7.16)	(33.36)	
(b) Diluted(₹)	(8.12)	(11.85)	(3.49)	(19.93)	(7.19)	(33.07)	(8.11)	(11.86)	(3.51)	(19.92)	(7.16)	(33.36)	

13th November, 2025

(a)The above Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 13th November, 2025. The Statutory Auditors of the Company have reviewed these results

as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (b) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Half year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website

For and on behalf of the Board of Directors

Dr. Nitesh Kumar Gupta Managing Director & CEO DIN: 08756907



**DOLLAR INDUSTRIES LIMITED** 

(CIN: L17299WB1993PLC058969) Registered Office: OM Tower | 15th Floor | 32, J.L.Nehru Road | Kolkata - 700 071 | West Bengal | India

Phone No: 033-2288 4064-66   Fax: 033-2288 4063   E-mail: investors@dollarglobal.in   Website: www.dollarglobal.in										
Extracts of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025										
Ш										(₹ In Lakhs)
Ш				Standalo	ne			Consolida	ated	
	SI No.			Corresponding Three months in previous year	Year to date	Previous Year Ended	Three Months Ended	Corresponding Three months in previous year	Year to date	Previous Year Ended
			30-09-2025	30-09-2024	30-09-2025	31-03-2025	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2025	31-03-2025
			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Ш	1	Total Income from Operations	47,028.94	44,582.80	85,414.04	1,68,218.59	47,185.72	44,687.25	87,098.34	1,71,045.97
Ш	2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	4,743.51	3,431.42	7,314.96	11,754.83	4,627.51	3,420.44	7,463.86	12,383.13
Ш	3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	4,743.51	3,431.42	7,314.96	12,073.69	4,627.51	3,420.44	7,463.86	12,383.13
Ш	4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items#)	3,549.14	2,642.94	5,511.61	9,033.15	3,475.30	2,641.63	5,654.84	9,222.03
	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	3,569.25	2,655.98	5,551.83	9,113.57	3,495.41	2,654.67	5,695.06	9,303.71
Ш	6	Equity Share Capital	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32
	7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	85,350.22	-	-	-	84,459.62
	8	Earnings per share (Face value of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations)-								

Basic and Diluted (Not Annualised for the quarter)\* # Includes Exceptional and/or Extra-ordinary item

Place: KOLKATA

Date : November 13, 2025

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Unaudited Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com), NSE

2 The Company has prepared the Consolidated Financial Statement on quarterly and half yearly basis and the Consolidated Financial figures include joint venture of the Company viz. Pepe

3 The Board in its meeting held on 26th September, 2025 had approved Composite Scheme of Arrangement under Sections 230 to 232 & other applicable sections of the Companies Act, 2013 amongst Dollar Industries Limited ("Transfere Company, Dindayal Texpro Private Limited ("Demerged Company"), ADDS Projects Private Limited ("Transferor Company 1"), Amicable Properties Private Limited ("Transferor Company 2"), Bhawani Yarns Private Limited ("Transferor Company 3"), Dollar Brands Private Limited ("Transferor Company 4"), Goldman Trading Pvt. Ltd. ("Transferor Company 5"), KPS Distributors Private Limited ("Transferor Company 6"), PHPL Properties Private Limited ("Transferor Company 7") & Zest Merchants Private Limited ("Transferor Company 8") and their respective Shareholders and Creditors ("Scheme") by virtue of which substantial related party transactions will be pruned down. The Company has applied to BSE & NSE (Stock Exchanges') for their prior approval to the Scheme before submission to NCLT for its approval. Approval from Stock Exchanges are awaited.

OUR COLLECTIONS

















RAINGUARD FORCE NXT

16.05

9.96

By Order of the Board of Directors

For Dollar Industries Limited

**Vinod Kumar Gupta** (Managing Director)

DIN: 00877949



## PG ELECTROPLAST LIMITED

(CIN: L32109DL2003PLC119416)

Regd. Office: DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025; Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

## **EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS**

FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(Rs. In Lakhs)

					(Its. III Eaklis)			
			STANDALO	NE .	CONSOLIDATED			
SI. No.	Particulars	Quarter Ended Sept 30, 2025	Quarter Ended Sept 30, 2024	Year ended March 31, 2025	Quarter Ended Sept 30, 2025	Quarter Ended Sept 30, 2024	Year ended March 31, 2025	
1	Total Income from Operations	37626.53	38312.53	1,48,675.98	65,536.61	67,129.52	4,86,953.17	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	4,936.18	2,549.44	11,054.33	632.16	3,006.23	36,469.21	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	4,936.18	2,549.44	11,054.33	632.16	3,006.23	36,469.21	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	3,868.21	1,956.24	8,470.61	275.98	1,932.75	28,779.63	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,879.01	1,979.18	8,542.62	219.52	1,917.43	28,779.74	
6	Equity Share Capital of Face Value Rs.1/- each	2,840.76	2616.35	2830.94	2840.76	2616.35	2830.94	
7	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31st March 2025			2,50,299.20			2,79,989.76	
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Basic	1.36	0.75	3.16	0.09	0.74	10.74	
9	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Diluted	1.34	0.73	3.10	0.09	0.72	10.55	

Note:- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

Place: Pune

Dated: November 13, 2025



For PG Electroplast Limited Sd/-

Vishal Gupta


Managing Director - Finance



## BAG

### बी.ए.जी. फिल्मस एण्ड मीडिया लिमिटेड

CIN: L74899DL1993PLC01841



प्रकाइट . www.bagnetworkz=.in; ३—नव . info@bagnetwork.in												
30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छ:माही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष (₹ लाख में)												
			स्टैंडर	अलोन					समे	कित		
विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त :	समाप्त छ:माही समाप्त		समाप्त तिमाही			समाप्त छ:माही		समाप्त वार्षिक
विवरण	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
संचालन से कुल आय (शुद्ध)	844.25	937.01	850.42	1,781.26	1,757.48	3,814.28	3,575.15	3,146.70	3,447.34	6,721.85	6,294.89	13,595.87
शुद्ध लाभ (हानि) अवधि के लिए (कर, असाधारण और/या असाधारण मदों से पहले)	63.99	92.11	26.61	156.10	81.04	154.18	45.59	279.10	56.04	324.69	244.87	1,224.26
कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	63.99	92.11	26.61	156.10	81.04	154.18	45.59	279.10	56.04	324.69	244.87	1,224.26
कर से बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	55.67	78.99	18.16	134.66	58.54	108.95	33.75	224.62	57.79	258.37	216.03	999.03
कुल व्यापक आय अवधि के लिए (जिसमें लाम/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	55.67	78.99	18.16	134.66	58.54	130.06	33.75	224.62	57.79	258.37	216.03	981.84
इविचटी शेयर कैपिटल प्रति शेयर आय (₹2/— प्रत्येक) (जारी रखने और बंद संचालन के लिए)	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66_
बेसिक : डाईल्यूटेड :	0.03 0.03	0.04 0.04	0.01 0.01	0.07 0.07	0.03 0.03	0.07 0.07	0.02 0.01	0.11 0.09	0.03 0.02	0.13 0.11	0.11 0.09	0.50 0.41

स्थान - नोएदा दिनांक : 12 नवम्बर, 2025

.... उपर्युक्त 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छ:माही के लिए ऊपर दिए गए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा स्वतंत्र और संयुक्त समीक्षा की गई और 12 नवम्बर, 2025 को हुई अपनी बैठक में निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अभिसक्षमण किया गया था। 2. इस अलेखापरिक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी ( भारतीय लेखांकन मानक) नियमों , 2015 के नियम 3 के सहपठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट और संशोधित सेबी नियमों तथा अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं ओर नितियों के अनुसार , जहां लागू हो , भारतीय लेखांकन मानकों ( आईएनडी–एएस ) के अनसार तैयार किया गया है।

3. उपरोक्त 30 सितन्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छ-माही के लिए स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप कण उद्धरण है और सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं ) विनियमों , 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर कि गए हैं। 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छ:माहीके लिए कम्पनी के स्टैंडअलोन और समेकित परिणामों का पुरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों पर निवेशकों के लिए www.nseindia.com और www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.bagnetwork24.ir पर भी उपलब्ध है। इसे नीचे दिए क्यीआर कोड़ को स्कैन कर के एक्सेस किया जा सकता है।

।. पिछली तिमाही/अवधि/वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार फिर से समूहीकृत और पुनवर्गीकृत किया गया है, ताकि वर्तमान अवधि/वर्ष की वर्गीकरण के अ नुरूप हो सके।





106.4FM RADIO

### प्रति बी.ए.जी. फिल्मस एण्ड मीडिया लिमिटेर अनराधा प्रसाद शक्ला

डीआईएन: 00010716

### **COLAB PLATFORMS LIMITED**

CIN: L65993DL1989PLC038194 Regd. Office: Innov8 CP2 44, Backary Portion, Regal Building, New Delhi, 110001

Mobile/Helpdesk No.: +91 88288 65429 Email: cs@colabplatforms.com; Website: www.colabplatforms.com Extracts of the Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30.09.2025

(Amount in Lakhs except EPS Standalone **Particulars** ended ended ended ended 30.09.2025 30.09.2025 30.09.2025 30.09.2025 Unaudited (Unaudited) Total income from operations (net) 4011.698 6190.500 18.000 4011.698 6190.500 18 000 Net Profit/(Loss) for a period (before tax and exceptional items) 157.056 277.851 48.157 154.633 274.880 48.157 Net Profit/(Loss) for a period before tax (after exceptional items) 157.056 277.851 48.157 154.633 274.880 48.157 154.633 274.880 157.056 277.851 48.157 48.157 Net Profit/(Loss) for the period after tax 157.056 48.157 154.633 274.880 48.157 Total Comprehensive Income for the period 277.851 Paid-up Equity Share Capital (Share of Re. 1/- each) 2040 000 2040.000 2040 000 1020 000 2040 000 1020 000 Earning per equity share Basic: 0.770 1.362 0.472 0.758 1.347 0.472 0.770 1.362 0.472 0.758 1.347

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended is available on the website of the Stock Exchange (<u>www.bseindia.com</u>) and also on Company's website (<u>www.colabplatforms.com</u>). The same can be accessed by scanning the QR code provided belov

Place: New Delhi Date: 12/11/2025



For Colab Platforms Limited Mukesh Jadhav DIN: 09539015

हाउसिंग फाइनेस HINDUJA HOUSING FINANCE

एएलएम - अरुण मोहन शर्मा सीआरएम- नवीन खटाना - 9555882099 सीआरएम- चंदन तिवारी - 9236214323 सीएलएम - सत्यम गप्ता - मो. नंबर 8006600745 सीएलएम - हिमाशु भसीन - 8006879454 परिशिष्ट- IV-A (नियम 8 (6) का परंतुक देखें) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम ৪(৪) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निम तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री नोटि . रतद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंध

प्रभारित है, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कॉर्या : 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई – 600015 और इसका शाखा कार्यालयः एफ8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेवटर 4, वैशाली, गाजियाबाद, 201019 को उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तारीखों पर **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है वह क्या है'' और ''जो कुछ** भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

-11 (	6. A SHALL AT ALL MINIT HAVE CHARLES ALL MANDALING CONTRACT AND CONTRA									
	सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि : 15.12.2025 को अपराह्न 14.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 16.12.2025 को अपराह्न 17.00 बजे तक ई-नीलामी की तिथि/समय : 17.12.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक									
क्र. सं.	ऋण खाता नं. और कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) ंका नाम /	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि और राशि कुल बकायातक	कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि						
1.	ऋण खाता सं. DL/NCU/NOIU/A000001836, श्री विनोद कृमार राय, श्रीमती अभिलाषा राय, गली सं. 218, प्लॉट सं. 218 ख. 256 विषयाना बुजुर्ग जीबी नगर, ग्रेटर नोएडा, ग्रामीण, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत – 201009	26-02-2025 और रु. 2404367/- दिनांक 26-02-2025 तक	29-08-2025 सांकेतिक कब्जा	ড. 408240/- ড. 408240/- ড. 10,000/-						
	अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 292, खसरा नंबर 295, खाता नंबर 193, गांव रोजा 203207, गांव रोजा जलालपुर, परगना और तहसील दादरी, रमा देवी रुकूल, ग्रामीण, गौतम	जलालपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत — 203207	गौतमबुद्ध नगर, रमा देवी	स्कूल, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश,						
2.	ऋण खाता सं. DL/MTG/MTNG/A00000098, CO/CPC/CPDF/A000004362, श्री सीवित्स कुमार, श्री नींदू, सिंह, एमआईजी–103, श्रीहरिपुरम, विशाखापत्तनम, ए.पी. कोरोमंडलम के पास, श्रीहरिपुरम, मेट्रो, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश 530011	26-02-2025 और रु. 2162081/- दिनांक 26-02-2025 तक	20-08-2025 सांकेतिक कब्जा	<b>▼.</b> 4380226.75/- <b>▼.</b> 438022.675/- <b>▼.</b> 10,000/-						
	अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति खाता संख्या 01058, खेत संख्या 851, प्लॉट संख्या ए—3र बुद्ध नगर यूगी, मेट्रो, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत — 203201	एवं ३६ पर, यमुना एन्क्लेव, परगना दनकौर, तह	इसील एवं जिला गौतमबुद्ध	नगर, उत्तर प्रदेश 203201, गौतम						
3.	ऋण खाता सं. GZ/CHP/CHPL/A000000086, श्री सुशील कुमार, श्रीमती मालती मालती सौ/ओ भूरिया जर्फ कल्लू अमरोहा उत्तर प्रदेश, मेट्रो, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, मारत – 244501	26-02-2025 और  रु. 921463/- दिनांक 26-02-2025 तक	26-08-2025 सांकेतिक कब्जा	<b>ড.</b> 2162700/- <b>ড.</b> 216270/- <b>ড.</b> 10,000/-						
	अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 27, खसरा नं. 475 श्री कृष्णा एन्क्लेव, ग्राम सुनपुरा, र 203207	जी.बी. नगर, नाथू फार्म हाउस के पास, ग्रेटर नोए	खा, उत्तर प्रदेश, 203207, <del>र</del>	नेट्रो, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत –						

	नीलम, एच–302, सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, सूरज पुर, मेट्रो, ग्रेटर नोएडा, यूपी 201306	141147 20-02-2020 (14)	कब्जा	₹. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः आवासीय भूखंड क्षेत्रफल 70 वर्ग गज 140 वर्ग गज में से, अर्थात, बाद इसे उक्त संपत्ति कहा जाएगा) सीमाएँ: विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2018 के अनुसार पूर्वः र			
	ऋण खाता सं. DL/NCU/NOIU/A000002148, , श्री सुनील कुमार, श्री नरेंद्र सिंह,		26-08-2025	▼. 3681855/-

ऋण खाता सं. DL/DEL/DWND/A000000608 CO/CPC/CPOF/A000000923, श्री पुरम चंद, श्री अमन सिंह

6. ऋण् खाता सं. DL/MNR/VSEN/A000000251, श्री ज़िशान् अली, श्रीमृती राजिया

**▼.** 10.000/ अचल संपत्ति का विवरण: खेत नंबर 426, प्लॉट नंबर 52, 5. सैनिक विहार, गांव बिलासपुर, परगना धनकौर, मेन रोड बिलासपुर, ग्रंटर नोएडा, वेक्टस बिल्डिंग मटेरियल स्टोर, गौतम बुद्ध नगर, जर प्रदेश, 203202, खेत नंबर 426, प्लॉट नंबर 52, 5. सैनिक विहार, ग्राम बिलासपुर, परगना धनकौर, मेन रोड बिलासपुर, ग्रंटर एन. ग्रामीण, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, भारत — 203202

26-02-2025 और रु. 947566/-

15-05-2025 और रु. 991791/-

20-11-2023 और रु. 1988428/

प्रदेश, भारत — 201306	ादनाक 15-U5-2U25 तक	कब्जा	₹. 10,000/-
अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति का क्षेत्रफल 70 वर्ग गज, खसरा संख्या 461 का भाग, आ संपत्ति" कहा जाएगा । सीमाएँ: तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वः 14 फीट चौड़ी सड़क, पश्चि	वासीय कॉलोनी सूरजपुर, परगना दादरी, तहसी मः अन्य, उत्तररू आरती की संपत्ति, दक्षिणः मुन्ना	ल और जिला गौतम बुद्ध न लाल की संपत्ति	ार, उत्तर प्रदेशय आगे इसे ''उक्त

ऋण् खाता सं. DL/DEL/PAND/A000001005,, श्री अभिजीत् शर्मा, श्रीमती मनीषा 06-01-2025 और रु. 3109676/ **ড.** 4639275/ शर्मा और श्रीमती मनीषा शर्मा, 36/3, टॉप पलोर, रामनगर एक्सटेंशन, जीत रेस्त गस, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, मेट्रो, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110051 दिनांक 06-01-2025 तक अवल संपत्ति का विवरणः पलैट संख्या 0803, आठवीं मंजिल, टावर डी, "बीटला लैप", इम्पेरिया मिराज के पास, प्लॉट संख्या जीएच—जी2, सेक्टर—25, जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी एसडीजेड, जिला गौत

अवल संपत्ति का विवरणः आवासीय पलैट संख्या यु.जी.एफ. 02. ऊमरी मृतल, (पीछे की ओर) (2 बीएचके एल.आई.जी. पलैट) बिना छत के अधिकार के, सुपर एरिया 56,74 वर्ग मी. अर्थात 600 वर्ग फु हिग्नेचर होम्स अग्राटेमेंट खसरा संख्या 365 और खाता संख्या 128 में से गाँव सफांबाद परगना और तहसील दादरी, जिला गाँतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) सीमाः पूर्वः प्रवेश और सामने की इका

	पश्चिमःखाला पलट उत्तरः खाला पलट, दाक्षणः खाला पलट			
9.	ऋण खाता सं.HR/NCH/GURH/A000000775, श्री राष्टुल ळुंडा, श्री आरती आरती, मकान सं.— एफ2 / 35, विजय चौक, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, मेट्रो, दिल्ली, दिल्ली, भारत — 110051	03-10-2023 और  रु. 2303652/- दिनांक 11-09-2023 तक	26-05-2025 सांकेतिक कब्जा	<b>v.</b> 3231495/- <b>v.</b> 323149.5/- <b>v.</b> 10,000/-

का भुखंड ऋण खाता सं. DL/SHL/LJPT/A000000192, श्री मो. इम्तेयाज आलम, श्रीमती 30-10-2024 और रु. 1687764/-फरीदा परवीन, एबीएस टावर, सर्फाबाद, सेक्टर 73 नोएडा, सुंदर फार्म हाउस के पार सेमीअर्बन, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत – 201301 दिनांक 26-10-2024 तक

अचल संपत्ति का विवरणः आवासीय खाली प्लॉट क्षेत्रफल 158 वर्ग गज, कुल भूमि क्षेत्रफल 316.66 वर्ग गज में से, खेत संख्या 194ए, गांव लुक्सर, परगना दनकौर, तहसील एवं जिला। गौतमबुद नगर, उ प्र. (इसके बाद "उक्त संपत्ति" कहा जाएगा) दिनांक 01.07.2015 के विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ : पूर्व. श्री बृजेश कुमार की संपत्ति, परिचर: कृपा का खेत, उत्तरः 7.5 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः अन्य

अचल संपत्ति का विवरणः भूतल, एबीएस टावर 510 वर्ग फुट क्षेत्रफल 110 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले मूखंड पर निर्मित खसरा संख्या 230 का भाग गाँव सरफावाद, उत्तर प्रदेश, इसके बाद "उक्त संपत्ति" कहा जाएगा। सीमाएँ गुर्वः अन्य, परिचमः अन्य, उत्तरः सङ्क, दक्षिणः भवन / पलैट प्रवेश द्वार

ऋण खाता सं. HR/GGN/FRBD/A000001323. . श्री सतीश नंदिकशोर. श्रीमती 18-06-2024 और ਨ. 1596335/-प्रियंका आर्य, गली सं.-53, भारत मेडिकल स्टोर के पास, संजय कॉलोनी, सेक्टर 22, फरीदाबाद, हरियाणा, मेट्रो, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत - 121005 दिनांक 13-06-2024 तक कब्जा

अचलु संपत्ति का विवरणुः क्षेत्रफल 200 वर्ग गज संपत्ति खसरा संख्या 36 मी का भाग गाँव गढ़ी चौकड़ी, तहसील दादरी और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, इसके बाद, उक्त संपत्ति के रूप रं 12. ऋण खाता सं. DL/DEL/PAND/A000001222 श्री सूरज कुमार, श्री नेहा श्रीवास्तव, मका सं.–55-बी, कृष्ण कुंज, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, मेट्रो, नक्ष् दिल्ली, दिल्ली, गारत – 20-11-2023 और रु. 2157073/-

दिनांक 13-10-2023 तक

दिनांक 26-02-2025 तक

अचल संपत्ति का विवरणः तीसरी मंजिल (पीछे की ओर) पर आवासीय पलैट, बिना छत्त के अधिकार के, क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर अर्थात 600 वर्ग फुट, सिग्नेचर होम्स उ संख्या 365 में से, गाँव सरफाबाद, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश । सीमाः पूर्वः प्रदेश और सामने की इकाई पश्चिमः खाली प्लॉट उत्तरः

 ऋण खाता सं. GH/BUL/GULW/A000000035, सुश्री सुनीता सुनीता, श्री संतराम संतराम और श्री आकाश माटी, 224 ग्राम सलेमपुर गुजंर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर, शिव मंदिर, ग्रामीण, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत – 203202 26-02-2025 और रु. 1549833/-26-08-2025 सांकेतिक **▼.** 336960/-

अचल संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या 405, गाँव सलेमपुर गुर्जर परगना दनकौर, गौतम बुद्ध नगर, शिव मंदिर, शहरी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत — 20320;

भुगतान का तरीका:– भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में गाजियाबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। जुंगतान का तराकाः— जुंगतान ाहुंजा हाजासन फाइन्स ालानटक के प्रत में गाजवाबाद न दय डिमों क क्षेप्र द्वारा किया जाएगा।

बंगलाइन ई—नीलामी बिक्री के नियम और शर्ते — 1. संपत्ति को "जैसा है जाई है, "जैसा है जो है', 'जो कुछ भी है 'और 'बिना किसी दायित्व रिहत'' के आधार पर बेचा जा रहा है। इस तरक की बिक्री किसी भी अकर की वारदी और खतिमूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति / परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात् ई—नीलामी बिक्री नोटिस में मिर्विस्ट सीमा और माप को सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारों के लिए कि नमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार का अपनी बोलयां वाना करने के लिएएक निमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार की और से कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिवित्तिच्य नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का उपयोग करें और बोलयां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति / परिसंपत्तियों और दावों / देय राशियों के स्वामित्व और वर्तमान रिश्ति के बारे में स्वयं की स्वतंत्र पुप्तात / परिश्रम करें जो संपत्ति को प्रमायित करते हैं। 4. नीलामी / बोली कंवल वेबसाइट auction@hindujahousingfinance.com and https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ''अंनलाहृत्त इलेव्हॉनिक मोड' या सेवा प्रवात्ता सीच ईडिया प्रझुबेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गाइ नीलामी के माध्यम से होगी, जो नीलामी के पुण प्रक्रिया को सुनिचित्रत लेनदार करेगा। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई—नीलामी में माग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेविटविटी खुद बोली लगाने वाले को सुनिचित्रत लेनता है। बोलीदात अपनी एन सिन्ता को सुनिचित्रत लेनता है। किस्ता अपनी परिस्त सी उत्तर अपनीत के लिए जिससे की स्वाम से का लगाने वाले का सुनिचित्र सुनि साम से साम के सिन्त के सुनिक्त लेनदार /सेवा प्रदाता को इंटरनेट कनेविटविटी, नेटवर्क समस्पाओं, स्वर्त वेविदाता सेवा सेवा सुना सेवा सेवा वाला के सुनिच को सिन्तर सेवा प्रवाद प्रति प्रता मारा, लि. 60रए, सहायता, प्रकेखा हैं, परिस्त की प्रताह सेवा प्रताह सेवा प्रताह की लगाने वाले के सुनिच सेवा सेवा स्वाम के लिए इंचर के सिन्तर सेवा सेवा सुना के सिन्त सेवा सेवा स्वाम के सिन्त के सिन्तर सेवा प्रताह की प्रताह की सुनिच के सिन्तर सेवा सेवा सेवा सुना के सिन्तर सेवा सेवा सुना सेवा सेवा सुना के सिन्तर सेवा सिन्तर सेवा सुनिच सुना का सुनाश्चर करना होगा। पुराबत लगांदिए तथा प्रदारता का इटरनट कमावदाबद, गटवक समस्याज, स्वयं क स्थारटम क्या, बर्जाला का व्यक्ता आत का लास प्रान्धार नह इहराया जाएगा। 6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया हेंतु तथा ई-नीलामी पर जीनताइन बोली लगान वाले संभावित बोलीदाता सेवा प्रदारता सेवा प्रदार ना से इंडिया प्रा. लि. तीसरी गिजल, प्लॉट नं, 88 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (सम्पर्क व्यक्ति: निथलेश, फोन नं, 788884466 ईसेलः delhi@ctindia.com, सहायता मो, 7. 7291981124/1125/1126 से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से पंजीकृत कर लेना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को स्वार्ध के कि वे सेवा प्रवाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें। 8. ई-मीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को ''हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष हुन्जिसंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा कार्यात्वय एफा, प्रथम तत, महालक्ष्मी मेट्टो टावर, सेक्टर थे, वैशाली, गाजियाबाद, 201019 के प्राधिकृत अधिकारी श्री संत्यम गुप्ता, मोबाइल तं. 8006600745 से संपर्क करें। 25. यह उपर्युक्त ऋण खाते के ऋणी / बंधककर्ता / गारंटर को 30 (तीस) दिन का नोटिस है, जो कि प्रतिमूत्ति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम १६) के अनुसरण में उपर्युक्त तिथि / स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में है।

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश / सावधानी: अंतिम भिनट / सेकंड में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चुक / विफलाता (इंटरनेट विफलात, बिजली की विफलात, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकरिसक रिश्वति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था / विकल्प जैसे बैक—अप बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक मांग ले सकें।